



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 10-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 5, 2019 (PHALGUNA 14, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग

(भवन व मार्ग शाखा) हिसार वृत्त

अधिसूचना

दिनांक 13 फरवरी, 2019

संख्या 2415.— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 10 से पक्की रोड रागर सरसिता के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है। उपरोक्त भूमि अधीग्रहण करने के लिए माननीय न्यायालय सिविल जज, (जुनियर डिविजन), सिरसा के फैसला दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को आदेश हुए हैं।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन उन व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे सम्बन्धित हैं।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इस समय इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने कर्मचारियों व कामकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के लिए संहर्ष अधिकृत करते हैं।

कोई भी व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो, तो इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिन के अंदर-अंदर अपने आक्षेप लिखित रूप में भूमि अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा) हिसार या कार्यकारी अभियंता प्रांतिय मण्डल नं० 2 लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा) सिरसा के समक्ष दायर कर सकता है। भूमि के नक्शों का निरीक्षण कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग भवन तथा मार्ग नं० 2 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।

विशिष्ट

जिला	तहसील	गांव का नाम/हदबस्त नं०	क्षेत्रफल एकड़ में	मुस्तील नं० व किला नं०	क्षेत्रफल कनाल-मरला
सिरसा	सिरसा	बाबा भूमणशाह/नं० 66	0.375	59 / / 1 मिन पश्चिम 10 मिन पश्चिम 11 मिन पश्चिम 20 मिन पश्चिम 21 मिन पश्चिम	0 — 12 0 — 12 0 — 12 0 — 12 0 — 12
				जोड़	3 — 0

अधीक्षक अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा),
हिसार वृत्त, हिसार।

HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDING AND ROADS BRANCH) HISAR CIRCLE

Notification

The 13th February, 2019

No. 2415.— Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be taken by the Government at public expense, for public purpose, namely NH-10 to Sangar Sarista road, in court case Sh. Sundar Lal *V/s* State of Haryana ordered by Additional Session Judge, Sirsa dated 17th December, 2015.

It is hereby notified that the land in locality, described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 11 (1) of Land Acquisition Act, 2013 for information of all to whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana is pleased to authorize the officer, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen, to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by the section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of any land in locality, may within 60 days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, Haryana PWD B&R Branch, Hisar or Executive Engineer, Provincial Division No. 11, PWD B&R Branch, Sirsa Plan of the land may be inspected in office of Executive Engineer, Provincial Division No. 11, PWD B&R Branch, Sirsa.

Specification

District	Tehsil	Locality/Village & H. B. No.	Area in Acre	Rectangle No./ Killa No.	Area in Kanal-Marla
Sirsa	Sirsa	Baba Bhuman Shah-66	0.375	59//	
				1 Min West	0 - 12
				10 Min West	0 - 12
				11 Min West	0 - 12
				20 Min West	0 - 12
				21 Min West	0 - 12
				Total	3 - 0

Superintending Engineer,
Public Works Department,
(Building and Roads Branch)
Hisar Circle, Hisar.